



राजस्थान सरकार

हवामहल

(कोरोना समय में बच्चों का झरोखा)

13 फरवरी 2021: शनिवार: अंक - 42



RSCERT Udaipur




बादलों के साथ
एक दिन

आज की कहानी

"क्या नजारा है? आकाश बादलों से भरा है। लाल और बैंगनी बादल, एक दूसरे से घुलमिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं! परंतु इतने लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। बादलों को लगता है कि वे यह सब भूल गए हैं। क्या एक छोटी लड़की बादलों को याद दिला सकती है कि वे बारिश को धरती पर भेज दें? इस कहानी को सुनने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें।"

3 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | एकलव्य




सियार और मोर

आज की कहानी

"सियार और मोर की दोस्ती से शुरू हुई यह कहानी, जिसमें बुढ़िया, बछड़ा, भालू... का सामना होता है सियार से और फिर दिन होता है, रात होती है, पर सियार की यह कहानी कभी खत्म नहीं होती है। इस कहानी को सुनने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | एकलव्य




मकड़ी और
मक्खी

आज की किताब

"मक्खी अक्सर मकड़ी को जाला बुनने में व्यस्त पाती। उसे लगता कि आखिर मकड़ी इतना समय जाला बुनने में क्यों लगाती है? एक दिन मक्खी जाले के पास गई और मकड़ी ने उसे पकड़ लिया। क्या मक्खी मकड़ी के जाले से बच पाएगी? इस कहानी को पढ़ने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | रूम टू रीड



कागज़ का
कंकाल

आज की गतिविधि

"ए-4 साइज़ के सफ़ेद कागज़ के उपयोग से आप एक मानव कंकाल का ढाँचा बना सकते हैं। इस गतिविधि को आपके लिए अरविंद गुप्ता जी प्रस्तुत कर रहे हैं। गतिविधि के वीडियो के लिए चित्र पर क्लिक करें।"

6 - 14 वर्ष के बच्चों के लिए | अरविंद गुप्ता टॉयज़




फूलों की उम्मीद

टीचर्स कॉर्नर

"ज़िंदगी का खाने और मोटे होने के अलावा भी और कुछ मतलब होगा? एक नन्ही इल्ली ने भरपेट पत्ते खाने के बाद सोचा। ज़िंदगी क्या है? उसे जानने-समझने के लिए वह एक यात्रा पर निकल पड़ती है। टीना पौलोस की यह कहानी आपको जीवन के नए अर्थ देगी। इसे पढ़ने के लिए चित्र पर क्लिक करें।"

शिक्षकों के लिए | अरविंद गुप्ता टॉयज़




#घरमेंरहें



#आनन्दसेपढ़ें

सूचना - हवामहल के माध्यम से कहानियों के प्रसारण हेतु शिक्षक साथी अपनी पसंदीदा कहानियों का ऑडियो, किताब एवं लेखक के विवरण सहित हमसे hawamahal.rscert@gmail.com पर साझा करें। ऑडियो की अवधि 5 मिनट से अधिक न हो एवं गुणवत्ता अच्छी हो।



आज का अंक आपको कैसा लगा ?

अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए सुझाव पेटिका के चित्र पर क्लिक करें।